

ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर  
केसरी बाना सजायें वीर का श्रृंगार कर ॥

डर नहीं तूफ़ान बादल का अँधेरी रात का  
डर नहीं है धूर्त दुनिया के कपट के घात का  
नयन में ध्रुव ध्येय के अनुरूप ही दृढ़ भाव भर ॥

है भरा मन में तपस्वी मुनिवरों का त्याग है  
और हृदयों में हमारे वीरता की आग है  
हाथ है उद्योग में रत राष्ट्र सेवा धार कर ॥

सिन्धु से आसाम तक योगी शिला से मानसर  
गूँजते हैं विश्व जननी प्रार्थना के उच्च स्वर  
सुप्त भावों को जगा उत्साह का संचार कर ॥

स्वार्थ का लवलेश सत्ता की हमें चिंता नहीं  
प्रान्त भाषा वर्ग का कटु भेद भी छूता नहीं  
एक हैं हम एक आशा योजना साकार कर ॥

शपथ लेकर पूर्वजों की आशा हम पूरी करें  
मस्त हो कर कार्य रत हो ध्येयमय जीवन धरें  
दे रहे युग की चुनौती आज हम ललकार कर ॥

**English Transliteration:**

le cale hama rāṣṭra naukā ko bhamvara se pāra kara  
kesarī bānā saajāyem vīra kā śrīṅgāra kara ||

ḍara nahī tūfāna bādala kā aṅdherī rāta kā  
ḍara nahī hai dhūrta duniyā ke kapaṭa ke ghāta kā  
nayana mem dhruva dhyeya ke anurūpa hī dṛṛha bhāva bhara ||

hai bharā mana mem tapasvī munivarom kā tyāga hai  
aura hṛdayom mem hamāre vīratā kī āga hai  
hātha hai udyoga mem rata rāṣṭra sevā dhāra kara ||

sindhu se āsāma taka yogī śilā se mānasara  
gūmjate haim viśva janānī prārthanā ke ucca svara  
supta bhāvom ko jagā utsāha kā saṁcāra kara ||

svārtha kā lavaleśa sattā kī hamem cimtā nahī  
prānta bhāṣā varga kā kaṭu bheda bhī chūtā nahī  
eka haim hama eka āśā yojanā sākāra kara ||

śapatha lekara pūrvajom kī āśā hama pūrī karem  
masta ho kara kārya rata ho dhyeyamaya jīvana dharem  
de rahe yuga kī cunautī āja hama lalakāra kara ||